



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 292]
No. 292]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 24, 2004/चैत्र 4, 1926
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 24, 2004/CHAITRA 4, 1926

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2004

का.आ. 391(अ).—तेरहवें लोक सभा के विघटन पर नई लोक सभा गठित किए जाने के प्रयोजन के लिए साधारण निर्वाचन करवाए जाने का विनिश्चय किया गया है;

अतः, अब, राष्ट्रपति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 14 की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों को अनुसरण में नीचे दी गई सारणी में स्तंभ (1) में यथाविनिर्दिष्ट आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप, दमण और दीव या दादरा और नागर हवेली में यथास्थिति, तत्स्थानी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में समाविष्ट उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा किए गए आदेशों के उपबंधों के अनुसार सदस्य निर्वाचित करने की अपेक्षा करते हैं।

सारणी

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
(1)	(2)
1. आन्ध्र प्रदेश	1. श्रीकाकुलम 2. पार्वथीपुरम (अ.ज.जा.) 3. बोम्बिली 4. विशाखापत्तनम 5. भद्राचलम (अ.ज.जा.)

2. असम

3. बिहार

(2)

6. अनकापल्ली
28. नगर कुरनूल (अ.जा.)
29. महबूब नगर
30. हैदराबाद
31. सिकंदराबाद
32. सिद्दीपेट (अ.जा.)
33. मेडक
34. निजामाबाद
35. आदिलाबाद
36. पैड्डापल्ली (अ.जा.)
37. करीमनगर
38. हनमकोंडा
39. वारंगल
40. खम्माम
41. नालगोंडा
42. मिरयालगुडा
4. धुब्री
5. कोक्राझाड़ (अ.ज.जा.)
6. बारपेटा
7. गुवाहाटी
8. मंगलदाई
9. तेजपुर
18. बाढ़
31. नालंदा

(1)	(2)	(1)	(2)
बिहार—(जारी)	32. पटना	गुजरात—(जारी)	24. सूरत
	33. आरा		25. माण्डवी (अ.ज.जा.)
	34. बक्सर		26. बलसर (अ.ज.जा.)
	35. सासाराम (अ.जा.)	6. जम्मू-कश्मीर	1. बारामूला
	36. बिक्रमगंज		6. जम्मू
	37. औरंगाबाद	7. झारखंड	4. चतरा
	38. जहानाबाद		5. कोडरमा
	39. नवादा (अ.जा.)		6. गिरीडीह
	40. गया (अ.जा.)		7. धनबाद
4. छत्तीसगढ़	1. सरगुजा (अ.ज.जा.)		13. पलामू (अ.जा.)
	2. रायगढ़ (अ.ज.जा.)		14. हजारीबाग
	3. जांजगीर	8. कर्नाटक	1. बीदर (अ.जा.)
	4. बिलासपुर (अ.जा.)		2. गुलबर्गा
	5. सारंगढ़ (अ.जा.)		3. रायचूर
	6. रायपुर		4. कोप्पल
	7. महासमुन्द		5. बेल्लारी
	8. कौंकेर (अ.ज.जा.)		6. दावनोरे
	9. बस्तर (अ.ज.जा.)		7. चित्रदुर्ग
	10. दुर्ग		8. टुमकुर
	11. राजनांदगाँव		9. चिकवल्लापुर
5. गुजरात	1. कच्छ		10. कोलार (अ.जा.)
	2. सुरेन्द्रनगर		11. कनकपुरा
	3. जामनगर		12. बंगलौर उत्तरी
	4. राजकोट		13. बंगलौर दक्षिणी
	5. पोरबंदर		27. बागलकोट
	6. जूनागढ़		28. बीजापुर
	7. अमरेली	9. महाराष्ट्र	14. धुले (अ.ज.जा.)
	8. भावनगर		15. नन्दुरवार (अ.ज.जा.)
	9. धंधुका (अ.जा.)		16. इरन्दोल
	10. अहमदाबाद		17. जलगाँव
	11. गांधीनगर		18. बुलढाना (अ.जा.)
	12. मेहसाना		19. अकोला
	13. पाटन (अ.जा.)		20. वाशिम
	14. बनसकांठा		21. अमरावती
	15. साबरकांठा		22. रामटेक
	16. कपाड़वंज		23. नागपुर
	17. दोहाद (अ.ज.जा.)		24. भंडारा
	18. गोधरा		25. चिमुर्
	19. कैरा		26. चंद्रापुर
	20. आनंद		27. वर्धा
	21. छोटा उदयपुर (अ.ज.जा.)		28. यावतमाल
	22. बड़ौदा		29. हिंगोली
	23. भड़ौच		30. नान्देड़
			31. परभनी

(1)	(2)
महाराष्ट्र—(जारी)	34. बीड
	35. लातूर
	36. ओसमानाबाद (अ.जा.)
	37. शोलापुर
	38. पंढरपुर (अ.जा.)
	46. सांगली
10. मणिपुर	2. बास्व मणिपुर (अ.ज.जा.)
11. मेघालय	1. शिलांग
	2. तुरा
12. मिजोरम	1. मिजोरम (अ.ज.जा.)
13. उड़ीसा	11. बरहामपुर
	12. कोरापुट (अ.ज.जा.)
	13. नौरंगपुर (अ.ज.जा.)
	14. कालाहण्डी
	15. फूलबनी (अ.जा.)
	16. बोलांगीर
	17. सम्बलपुर
	18. देवगढ़
	19. धेनकानल
	20. सुन्दरगढ़ (अ.ज.जा.)
	21. क्योन्झर (अ.ज.जा.)
14. त्रिपुरा	1. त्रिपुरा पश्चिम
	2. त्रिपुरा पूर्व (अ.ज.जा.)
15. अंदमान और निकोबार द्वीप	1. अंदमान और निकोबार द्वीप (अ.ज.जा.)
16. दादरा और नागर हवेली	1. दादरा और नागर हवेली (अ.ज.जा.)
17. दमण और दीव	1. दमण और दीव

[फा. सं. एच-11024(1)/2004-वि. 2]

आदेश द्वारा,

टी. के. विश्वनाथन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2004

S.O. 391(E).—Whereas it has been decided to hold a general election for the purpose of constituting a new House of the People, on the dissolution of the Thirteenth House of the People;

Now, therefore, in pursuance of the provisions contained in Sub-section (2) of Section 14 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the President is pleased to call upon the Parliamentary constituencies, specified, in column (2) of the Table given below comprised within the corresponding State or Union Territory, as the case may be, of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Jammu and Kashmir,

Jharkhand, Karnataka, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Orissa, Tripura, Andaman and Nicobar Islands, Daman and Diu or Dadra and Nagar Haveli as specified in column (1) of the said Table, to elect members in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder.

TABLE

State/Union Territory	Parliamentary Constituency
(1)	(2)
1. Andhra Pradesh	1. Srikakulam
	2. Parvthipuram (ST)
	3. Bobbili
	4. Vishakhapatnam
	5. Bhadrachalam (ST)
	6. Anakapalli
	28. Nagarkurnool (SC)
	29. Mahbubnagar
	30. Hyderabad
	31. Secunderabad
	32. Siddipet (SC)
	33. Medak
	34. Nizamabad
	35. Adilabad
	36. Peddapalli (SC)
	37. Karimnagar
	38. Hanamkonda
	39. Warangal
	40. Khammam
	41. Nalgonda
	42. Miryalguda
2. Assam	4. Dhubri
	5. Kokrajhar (ST)
	6. Barpeta
	7. Gauhati
	8. Mangaldoi
	9. Tezpur
3. Bihar	18. Barh
	31. Nalanda
	32. Patna
	33. Arrah
	34. Buxar
	35. Sasaram (SC)
	36. Bikramganj
	37. Aurangabad
	38. Jahanabad
	39. Nawada (SC)
	40. Gaya (SC)
4. Chhattisgarh	1. Surguja (ST)
	2. Raigarh (ST)
	3. Janjgir
	4. Bilaspur (SC)
	5. Sarangarh (SC)
	6. Raipur

(1)	(2)	(1)	(2)
Chhattisgarh—Contd.	7. Mahasamund	Karnataka—Contd.	13. Bangalore South
	8. Kanker (ST)		27. Bagalkot
	9. Bastar (ST)		28. Bijapur
	10. Durg	9. Maharashtra	14. Dhule (ST)
	11. Rajnandgaon		15. Nandurbar (ST)
5. Gujarat	1. Kutch		16. Erandol
	2. Surendranagar		17. Jalgaon
	3. Jamnagar		18. Bhuldhana (SC)
	4. Rajkot		19. Akola
	5. Porbandar		20. Washim
	6. Junagadh		21. Amravati
	7. Amreli		22. Ramtek
	8. Bhavnagar		23. Nagpur
	9. Dhandhuka (SC)		24. Bhandara
	10. Ahmedabad		25. Chimur
	11. Gandhinagar		26. Chandrapur
	12. Mehsana		27. Wardha
	13. Patan (SC)		28. Yavatmal
	14. Banaskantha		29. Hingoli
	15. Sabarkantha		30. Nanded
	16. Kapadvanj		31. Parbhani
	17. Dohad (ST)		34. Beed
	18. Godhra		35. Latur
	19. Kaira		36. Osmadabad (SC)
	20. Anand		37. Solapur
	21. Chhota Udaipur (ST)		38. Pandharpur (SC)
	22. Baroda	10. Manipur	46. Sangli
	23. Broach	11. Meghalaya	2. Outer Manipur (ST)
	24. Surat		1. Shillong
	25. Mandvi (ST)		2. Tura
	26. Bulsar (ST)	12. Mizoram	1. Mizoram (ST)
6. Jammu and Kashmir	1. Baramulla	13. Orissa	11. Berhanpur
	6. Jammu		12. Koraput (ST)
7. Jharkhand	4. Chatra		13. Nowrangpur (ST)
	5. Kodarma		14. Kalahandi
	6. Giridih		15. Phulbani (SC)
	7. Dhanbad		16. Bolangir
	13. Palamu (SC)		17. Sambalpur
	14. Hazaribagh		18. Deogarh
8. Karnataka	1. Bidar (SC)		19. Dhenkanal
	2. Gulbarga		20. Sundargarh (ST)
	3. Raichur		21. Keonjhar (ST)
	4. Koppal	14. Tripura	1. Tripura West
	5. Bellary		2. Tripura East (ST)
	6. Davangere	15. Andaman and Nicobar	1. Andaman and Nicobar Islands
	7. Chitradurga	16. Dadra and Nagar Haveli	1. Dadra and Nara Haveli (ST)
	8. Tumkur	17. Daman and Diu	1. Daman and Diu
	9. Chikballapur		
	10. Kolar (SC)		
	11. Kanakapura		
	12. Bangalore North		

[F. No. H-11024(1)/2004-Leg. II]

By Order,

T. K. VISWANATHAN, Secy.